

परिश्रान्त paricránta (pp. de *pram*) épuisé de fatigue.

परिषत् parisat ppr. de *paryasmi*.

परिषद् parisad f. (*sad*) assemblée, réunion. — M. *parisada* membre d'une assemblée ; spectateur.

paríṣadmi Vd. (*sad*) s'asseoir autour, ac. || Eviter (?).

paríṣadwala m. (sfx. *vala*) membre d'une assemblée, assistant, spectateur.

paríṣadya m. mms.

परिषष्ठे pariṣahé (*sah*). Soutenir, supporter.

परिषिद्धामि parisíñcámi (*sić*) ; pp. *parisikta*. Arroser; || asperger; faire l'aspersion.

paríṣiñcayámi mms.

परिषुणोमि parisúñomí (*su* 5). Exprimer, extraire un suc.

परिषुवामि parisúvámi (*sú* 6). Assiéger : *puram* une ville.

परिषेवे pariṣévé (*sév*) mms. que *sév*.

परिषोरणा pariṣódaça a. seize.

परिष्कन्द् parískanda et *parískanna* m. nourrisson étranger.

परिष्कन्दामि parískandámi (*skand*). Sauter autour, assaillir.

परिष्करोमि pariskarómi (*kṛ*; s euph.) Mettre autour; || orner. || Se rassembler. *parískára* m. ornementation.

परिष्टोम् pariṣítóma m. (*stu*) housse d'éléphant.

परिष्टापयामि parisítápayámi (c. de *stā*). Etablir, dresser : *ásanam* un siège.

परिष्वङ् paríswáyga m. (*svañ*) embrasement.

परिष्वज्ञे pariṣwajé et qfq. pariṣwajámi (*swañ*); pp. *paríswakla*. Embrasser.

परिसङ्खामि parisákyámi (*sam*; *kyā*). Enumérer, compter.

परिसञ्जिहे parísañjihé (*sam*; *hā* 5). Quitter.

परिसम्य parisañbya m. (*sabā*; sfx. *ya*) membre d'une assemblée, assistant.

परिसमाप्ये parisamápyé (*sam*; ps. de *ap*). Etre contenu, être compris.

परिसर् parisara m. (*sp*) circuit; || environs d'une ville, d'une montagne, etc. || Au fig. révolution de la vie, destinée; mort.

paríṣarýa f. circuit, détour; action d'errer autour, d'approcher; || service [de valet].

paríṣára m. action d'errer autour.

परिसर्पये parisarpa m. (*sp*) action d'aller autour; || entourage.

परिसंस्तुवे parisañstuvé (*sam*; *stu*). Louer, célébrer.

परिसंस्पृशामि parisáñspřcámi (*sam*; *spřc*). Toucher, caresser.

परिसाध्यामि parisádayámi (c. de *sád*). Terminer, arranger une affaire.

परिसान्त्वयामि parisántwayámi (*sántw*). Caresser; || consoler; || apaiser.

परिसेधामि pariséddmi (*siđ* 1). Aller autour, entourer, ac.

परिस्कन्द् parískanda m. nourrisson étranger. *parískanna* m. mms.

परिस्तुणोमि paristṛṇomí (*stṛ*). Etendre autour : *kambalán* des couvertures.

परिस्तोम् paristótoma m. (*stu*) housse d'éphant.

परिस्पन्द् paríspanda m. (*spand*) vif désir de se mouvoir, prurit (?); || force, vigueur (?); || (?) pour *parísyanda*.

paríspandé (*spand*) s'agiter en désordre, trembler.

परिस्पृशामि parispr̥cámi (*spřc*) toucher tout autour; caresser.

परिस्यन्द् parísyanda m. (*syand*) toute parure flottant autour de la tête.

परिस्रवामि parisravámi (*sru*). Couler autour, couler, s'écouler.

parísrava a. qui coule autour, coulant. *parísrut* f. liqueur vineuse, en gén. — *parísrutá* f. mms.

परिहन्मि paríhanmi (*han*). Battre; abattre; || ôter, enlever en frappant.

परिहरामि paríharámi (*hṛ*). Prendre autour, embrasser : *pari dyáváppitivi jaśré* [l'aurore] a enveloppé le ciel et la terre, Vd. || Cacher : *rósam* sa colère.

paríhára m. au fig. manque de respect. *paríhárya* (pf. de *hṛ*). — S. m. bracelet.

परिहर्षामि paríharśámi (c. de *hṛś*). Réjouir beaucoup.

परिहास् paríhása m. (*has*) rire, jeu, plaisirerie; amusement.

परिहिनोमि paríhinómi (*hi*). Préparer : *hótram* un hymne, Vd.

परिहीये parihiyé (ps. de *hā*). Etre négligé : *paríhiyaté dármas* la justice languit. || Manquer, être absent. || Manquer de, être privé de, ab.

परिहर्वामि paríhárámi (*hwr*). Courber; || au fig. blesser, affliger.

परीक्षे paríxé (ix). Regarder tout autour; examiner, explorer.

paríxaka a. (sfx. *aka*) qui examine, qui scrute.

paríxána n. et *paríxá* f. exploration; examiner.

paríxámi (c. de *ix*) faire examiner, faire explorer.

परीणाय paríñáya m., cf. *paríñáya*.

परीत् paríta (pp. de *paryémi*) entouré, enveloppé : *duskéna* par le malheur; *góniténá* couvert de sang.

परीतत् parítat a. (i pour *i*; *tan*) étendu en tout sens.

परीताप् parítápá m. (i pour *i*; *tap*) chaleur, ardeur.

परीत्त parílla pp. de *paridadámi*.

paríllacuña m. Au pl. les dieux du 13^e ordre, Bd.

paríttába m. (*ā*; *ā*) au pl. les dieux du 10^e ordre, Bd.

परीधाविन् parídávin m. (i pour *i*; *ddáv*) la 41^e année du cycle indien.

परीपृच्छे parípr̥cē aug. de *prac*.

परीप्सामि parípsámi (*pari*; *ips* dés. de *áp*). Vouloir atteindre, désirer; se porter vers. || Défendre, vouloir sauver : *jívitam* sa vie.

परीभाव् pari�áva m. (i pour *i*; *bú*) manque de respect.

परोर् parira n. fruit.

परीरम्ब parírambá m. (i pour *i*; *rab*) embrasement.

परीवर्त् parívarta m. (i pour *i*; *vrt*) révolution, changement. || Echange, troc. || L'incarnation de Vishnu en tortue.

परीवार् parívára m., cf. *parívára*.

परीष्टि pariṣti f. (*is*) recherche [scientifique]. || Bonne volonté. || Service.

परीसार् parisára m., cf. *parívara*.

परु paru m. nœud de tige.

परुत् parut adv. l'année dernière.

parutna a. de l'an passé.

परुद्वार् parudvára m. cheval.

परुष् paruṣa a. (paru; sfx. *sa*) rude, âpre, noueux; || au fig. outrageant, injurieux. — S. n. outrage; || barlier jaune. — S. m. *xylocarpus granatum*, bot.

parúṣlikha a. (pp. de *vac*; sfx. *ika*) qui tient un langage injurieux.

परुष्णी paruṣni f. rivière du Saptasindhu, Vd.

परुस् parusa n., cf. *paru*.

परुष् parúṣa m. le xylocarpe, bot.

परेण paréna (i. de *para*) sur, dessus, ac.

परेत् paréta (pp. de *émi*; i) passé; trépassé, mort. — S. m. un trépassé, un revenant, un *préta*.

parélaráj m. Yama roi des morts.

परेयुस् parédyus et parédyavi adv. (*para*; *div*) le lendemain; lat. perendie.

परेपम् parépam adv. (*para*; *apa*) où de l'eau s'est ramassée, d'où elle s'est retirée.

परेष्टि paréṣti m. [? ou *paréṣti* de *stā*] le Très-Haut, Brahma.